

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 जून 2023—ज्येष्ठ 25, शक 1945

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2023

क्र.-AGR-13-13-0001-2023-Sec-2-14(C.No. 222652).—भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-02-2015-क्रेडिट-II, दिनांक 26 अप्रैल 2021 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2023 एवं रबी 2023-24 के लिये जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये बीमित राशि अधिसूचित की जाती है. संलग्न सूची अनुसार फसलों के समक्ष दर्शित राशि को प्रति हेक्टेयर बीमित राशि घोषित किया जाता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव.

खरीफ 2023 बीमित राशि प्रति हेक्टेयर (रूपये में)

क्र.	जिला	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	मक्का	बाजरा	अरहर तुअर	ज्वार	कोदो-कुटकी	मूंगफली	तिल	कपास	मूंग	उडद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	धार	21000		39600	31000	20500	30000	22000		26000	22000	64900	22000	22000
2	रतलाम			52000	40000	8400	60000	19600		50000	24800	60000	40000	30000
3	मुरैना	32600	24191	34340	20360	16500	35900	28310		40776	18500		25000	26100
4	सागर	21000	16700	24500	9800		22900	10600		21500	7500		14700	14700
5	रीवा	37200	25700	33600	28600	23000	31500	27800	49000		28500		31000	27200
6	अलीराजपुर	30000	20000	35000	26000	15000	28000	20000		17800		50000	20800	25000
7	श्यामपुर	32600	24191	34340	20360	16500	35900	28310		40776	18500		25000	26100
8	बैतूल	36000	30000	40000	36000		35000	20000	14300	35000	20000	44000	25000	25000
9	इंदौर			35600	30000			23100						
10	होशंगाबाद	45000	29000	32700	29500		31500	18000			22000	20000	27000	26000
11	शिवपुरी	37900	35400	34200	27400	20000	29000	19600		34600	19400		27600	27600
12	अनूपपुर	33000	27000	26700	16000		20500	8800	9000	22000	15700		19300	19300
13	उज्जैन			33600	25000	4000	25900	40000				40000	26700	26700
14	सीहोर	44000	36700	39300	29225		26400	21000		24200		37000	24200	22000
15	छिंदवाडा	36800	22400	31600	36700	18000	42000	30100	15000	39200	29000	46400	28100	24300
16	मंडसौर	19400		54000	33000	30000	30000	30000		29900	24900	40000	30000	30000
17	नीमच		20000	54000	33000	30000	30000	30000		29900	24900	40000	30000	30000
18	विदिशा	56700	27200	32000	22100		25800	14600		26200			22000	22000
19	बालाघाट	45000	35000	26000	22000		26000		14000	26000			24000	24000
20	पन्ना	37500	20000	28000	20000		34000	13200		32900	22000		20000	20000
21	गुना	30000	20000	36000	25000			34020		34230	14000		24414	21000
22	देवास			42500	23000		16000	21000		16000		39000	16000	16000
23	दमोह	32000	22000	27000	18500		26000	20000		22000	17000		24000	24000
24	शहडोल	33000	27000	26700	16000		20500	8800	9000	22000	15700		19300	19300
25	उमरिया	33000	27000	26700	16000		20500	8800	9000	22000	15700		19300	19300
26	जबलपुर	36000	25000	30000	20600		30500	13000	9000		16600		24600	25000
27	डिण्डोरी	37900	32000	34500	23900		26200		19900		20000		26000	26000

क्र.	जिला	धान स्थिति	धान असिंचित	सोयाबीन	मक्का	बाजरा	अरहर तुअर	ज्वार	कोदो-कुटकी	मूंगफली	तिल	कपास	मूंग	उडद
28	सतना	41000	29197	31000	23000	10000	30000	23000			22300		23700	23900
29	झाबुआ	30000	20000	35000	26000	15000	28000	20000		17800		50000	20800	25000
30	खण्डवा	30000	30000	40000	30000	24000	35000	25000		35000	24000	50000	25000	25000
31	नरसिंहपुर	35000	20000	27000	27500		33000				14000		19500	19500
32	बड़वानी			27500	27500	11000	35000	17100		25300		66000	18000	19800
33	खरगोन			27500	27500	11000	35000	17100		25300		66000	18000	19800
34	टीकमगाढ	27500	22000	32000	19000	15000	26000	15000		42000	20000		25000	26000
35	निवाडी	27500	22000	32000	19000	15000	26000	15000		42000	20000		25000	26000
36	आगरमालवा	20000		47300	33000	8800	40000	19500		28500		13200	33000	33000
37	हरवा	45000	29000	32700	29500		31500	18000			22000		27000	26000
38	शाजापुर	20000		49500	33000	8800	40000	14500		28500		13200	33000	33000
39	रायसेन	51000	32600	28900	26000		31700	15700		28000	10000		27100	19900
40	मंडला	37900	32000	34500	23900		26200		19900		20000		26000	26000
41	कटनी	36000	25000	30000	20600		30500	13000	9000		16600		24600	25000
42	खालियर	41800		31900	20000	24200	34000	26400		16000	20900		32000	27500
43	सिवनी	41000	30600	27400	33700		37500	22400	11900	40600	21000	21100	27500	25800
44	छतरपुर	43800	26700	37700	38000	23700	24400	23700		38700	21700		25500	26600
45	भोपाल	51000	38500	40000	24500		40000	25440					26000	26000
46	अशोकनगर	30000	20000	36000	25000		34020	34020		34230	14000		24414	21000
47	सीधी	40860	30855	37734	29856	23923	30411	23923	15803	34120	23597	42454	21328	21735
48	सिंगरीली	40860	30855	37734	29856	23923	30411	23923	15803	34120	23597	42454	21328	21735
49	दातिया	47250		24850	7600	18400		9188		26700	24500		14000	17200
50	बुरहानपुर	30000	30000	40000	30000	24000	35000	25000		35000	24000	50000	25000	25000
51	राजगाढ			37100	25000		35000	23600		35000	18000		22700	23150
52	भिण्ड	35200		32700		17800	18700	18800			14000		30000	18900

111

रबी 2023-24 बीमित राशि प्रति हेक्टेयर (रूपये में)

क्रं.	जिला	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना	राईसरसों	अलसी	मसूर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धार	44500	21000	37800	30000	21000	22000
2	रतलाम	54000	18300	35000	23100	21000	28200
3	मुरैना	44497	26600	24800	25500		28187
4	सागर	22200	18400	28500	18000	16700	22300
5	रीवा	36200	24600	40800	28000	20800	23800
6	अलीराजपुर	35000	26000	25000			
7	श्यापुर	44497	26600	24800	25500		28187
8	बैतूल	40000	25000	32000	30600	23000	27000
9	इंदौर	35500	24500	31500			
10	होशंगाबाद	43500	29600	36000	31000	17400	29700
11	शिवपुरी	36600	27400	33600	25900	23600	25600
12	अनूपपुर	30000	24000	23000	20400	20000	19500
13	उज्जैन	38000		29400	22000		30000
14	सीहोर	39900	29750	30800		15000	25000
15	छिंदवाडा	38700	26800	36600	34300	28600	29700
16	मंदसौर	54000	24500	38800	28300	25700	30000
17	नीमच	54000		38800	25100	25700	30000
18	विदिशा	35000	26300	35000	13500	13200	22000
19	बालाघाट	35000	21300	29000	27500	19000	12000
20	पन्ना	40000	20400	29000	17500	12400	22000
21	गुना	36000	23000	31000	21000	15750	21000
22	देवास	42500	16000	34000	12500	13500	13500
23	दमोह	33000	18000	32000	18000	18000	24000
24	शहडोल	30000	24000	23000	20400	20000	19500
25	उमरिया	30000	24000	23000	20400	20000	19500
26	जबलपुर	36000	25000	29600	20000	20000	26400
27	डिण्डोरी	34500	26000	30000	15400	16500	21500
28	सतना	42300	35200	35900	34100	33600	29000
29	झाबुआ	35000	26000	25000			
30	खण्डवा	42000	18000	30000			35000
31	नरसिंहपुर	36000	21000	32000			25500
32	बड़वानी	35000	26000	35000			
33	खरगोन	35000	26000	35000	25100		
34	टीकमगढ़	33000	24200	30000	25000		24000
35	निवाडी	33000	24200	30000	25000		24000
36	आगरमालवा	51500	20900	40000	40000	13500	40000
37	हरदा	43500	29600	36000	31000	17400	29700
38	शाजापुर	52800	20900	40000	40000	13500	40000
39	रायसेन	36000	22000	35000	27000	17000	32000

क्र.	जिला	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना	राईसरसों	अलसी	मसूर
40	मंडला	34500	26000	30000	15400	16500	21500
41	कटनी	36000	23300	29600	20000	20000	26400
42	ग्वालियर	33900	25000	32000	28600		23100
43	सिवनी	33700	24700	38000	23100	18900	24500
44	छतरपुर	32700	29100	28200	20300	20000	22000
45	भोपाल	51000	36000	34300	30000		30000
46	अशोकनगर	36000	23000	31000	21000	15750	21000
47	सीधी	41785	31037	29917	31244	27237	28457
48	सिंगरोली	41785	31037	29917	31244	27237	28457
49	दतिया	25900		31600	23900		22200
50	बुरहानपुर	42000	18000	30000			35000
51	राजगढ़	44500	26000	30200	22700		27500
52	भिण्ड	33500	23100	24700	24900		16100